



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 पौष 1931 (श0)  
(सं0 पटना 36) पटना, सोमवार, 11 जनवरी 2010

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

18 दिसम्बर 2009

जी0 एस0 आर0 1, दिनांक 11 जनवरी 2010—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रकाशित आदेश 2461(अ0), दिनांक 25 सितम्बर, 2009 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (छठा संशोधन) आदेश, 2009 के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् चावल के लिए 30 सितम्बर, 2010 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा गया है। उक्त आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 9 दिनांक 19 अप्रैल 1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन-पत्र एकीकरण) आदेश 1984 के खण्ड 3 के अन्तर्गत व्यापारिक वस्तुओं के लिए संचयन सीमा के लिए निर्गत अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 49, दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 में निम्न संशोधन करते हैं, यथा :-

- (1) राज्य में चावल का कोई भी व्यापारी किसी भी समय स्टॉक में चावल का कोई भी स्टॉक प्राप्त करने की तिथि से 30 (तीस) दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय स्टॉक में नीचे उल्लिखित मात्रा से अधिक सभी तरह का चावल नहीं रखेगा ।

(क) नगर निगम क्षेत्र-2000 (दो हजार) क्वींटल ।

(ख) अन्य सभी क्षेत्र—1000 (एक हजार) क्वींटल ।

चावल मिलों के लिए भंडारण की अधिकतम सीमा 3000 (तीन हजार) क्वींटल रहेगी ।

परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये चावल के स्टॉक में लागू नहीं होगी:—

(i) सरकारी मद्दे स्टॉक; या

(ii) राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित अनुज्ञप्ति प्राप्त उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टॉक; या

(iii) भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टॉक ।

(2) उपर्युक्त निर्धारित संचयन सीमा का अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार के पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा ।

(3) तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

(4) यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

(सं० प्र०४-आ०-०१/२००९(खण्ड-IV)—5669),

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

राधा बिहारी ओझा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

*The 18th December 2009*

G.S.R. 1, dated 11th January 2010.—By the order of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Published under order 2461 (A), 25<sup>th</sup> September 2009, in words expression used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restriction) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities namely Rice for a further period upto 30<sup>th</sup> September 2010. In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the above order the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the order issued vide Notification No. G.S.R. 49, dated 17<sup>th</sup> October, 1985 for the storage limit of trade Articles under clause (3) of Bihar Trade Articles (Licencing Unification) order 1984 Published by Food and Consumer Protection Department Bihar, Patna under order G.S.R. 9, dated 19<sup>th</sup> April, 1984.

(1) No recognized dealer of Rice shall hold any stock of Rice for a period exceeding 30 (thirty) days from the date of receipt by him of such stock and shall not keep in stock at any time, rice in excess of quantities mentioned below :-

(a) Municipal Corporation Areas - 2000 (Two Thousand) quintals

(b) All Other Areas - 1000 (One Thousand) quintals.

Maximum stock limit for Rice millers shall be 3000 (Three thousand) quintals.

Provided that nothing contained in this order shall apply to the holding or keeping of stock of Rice by the following ,

(i) Stock held on Government account or

(ii) Stock held by the recognised dealers nominated by the State Government or an officer authorized by it for distribution through Fair Price Shop.

(iii) Stock held by the Food Corporation of India/Bihar State Food Corporation .

(2) The stock limits fixed as above shall not be crossed in any case without prior approval of the State Government.

(3) Corresponding notifications/orders issued previously shall deem to be ammended upto this extent.

(4) This notification shall come into force at once.

(Pra/04-aa-01/09-Part-IV—5669),

By order of the Governor of Bihar,

RADHA BIHARI OJHA,

*Joint Secretary to the Govt.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 36-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>